

संख्या-753/XIX-1/18-87/2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवरस्थापना विकास निगम लि०, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-05/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 7- समन्वयक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार पाण्डे)

अनु सचिव।

